

September 10, 2020

The Manager
Department of Corporate Relationship,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 500370

SUB:

Newspaper advertisement 51<sup>st</sup> Annual General Meeting through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of advertisement published, in compliance with general circular no 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI)(hereinafter collectively referred to as circulars) 51<sup>st</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 11.00 A.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in the following newspapers on September 10, 2020:

- (i) Financial Express dated 10.09.2020 (English Daily)
- (ii) Jansatta dated 10.09.2020 (Hindi Daily)

The above notice is also uploaded on the Company's website i.e. www.salora.com

Kindly take the same on records and acknowledge receipt of the same.

DIMESSPLO

Thanking You,

Yours faithfully, For Salora International Limited

(Mahak Agarwal)

Company Secretary & Compliance Officer

M.No.: A-41350

Encl. as above

PACIFIC INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Survey No. 13, N.H.48, Kempalinganahalli

Village, Nelamangala Taluk, Bangalore-Karnataka 562123

Tel No. +91-8027723004; Fax: +91-8027723005

Corporate Office: Village Bedla, P.O. Box 119, Udaipur-313001

Tel No. +91-294-2440196, 2440388; Fax: +91-294-2440780

Email: pacificinvestor@rediffmail.com; Website: www.pacificindustriesltd.com

CIN: L14101KA1989PLC062041

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing

Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that

Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on

Tuesday, 15th September, 2020at the Corporate Office of the company

situated at Village - Bedla, Udaipur - 313001 to consider and approve

the un-audited Financial Results of the Company for the quarterended

on June 30, 2020. This information is also available on the website of

the company at www.pacificindustriesltd.com and on the website of

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

March 02, 2009

Companies Act, 1956

December 04, 2019

September 10, 2020

Relevant Fanticulars

BSE ltd at www.bseindia.com.

2. Date of Incorporation of Corporate Debtor

office (if any) of the Corporate Debtor

incorporated / registered

Corporate Debtor

Authority under which Corporate Debtor is

4. Corporate identity number / limited liability

identification number of corporate debtor

Address of the registered office and principal

Insolvency commencement date in respect of

7. Date of invitation of expression of interest

Norms of ineligibility applicable under

10 Last date for receipt of expression of interest

Date of issue of final list of prospective

A Date of issue of information memorandum,

plans to prospective resolution applicants

plan, evaluation matrix, information

16 Last date for submission of resolution plans

Manner of submitting resolution plans to

18 Estimated date for submission of resolution

Name and registration number of the

plan to the Adjudicating Authority for approva

Name, Address and e-email of the resolution

professional, as registered with the Board

memorandum("IM") and further

evaluation matrix and request for resolution

Last date for submission of objections to October 6, 2020

section 29A are available at:

11 Date of issue of provisional list of

provisional list

information

resolution applicants

resolution professional

resolution professional

prospective resolution applicants

Eligibility for resolution applicants under

section 25(2)(h) of the Code is available at:

Date: 09.09.2020

Place : Udaipur

By order of the Board

For Pacific Industries Limited

Sd/-

(Sachin Shah)

Company Secretary

Shri Vardhman Rice Mills Private Limited

Registrar of Companies, Delhi under the

REGD. OFFICE:LD-1, Pitampura, Delhi-110034

UNIT:Gohana Road, Panipat, Haryana-132103

Details can be sought by email request on email

As per Section 29 A and other provisions of the

http://ibbi.gov.in/webfront/legal framework.php

Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

IBBI/IPA-001/IP-P00572/2017-18/11013

Resolution Professional Office Address

Resolution Professional Office Address

IBBI/IPA-001/IP-P00572/2017-18/11013

IBBI/IPA-001/IP-P00572/2017-18/11013

cirp.shrivardhman@gmail.com

9729870010, 9416202010

380 Sector 3 Ext., HSIIDC, Karnal-132001

9729870010, 9416202010

October 25, 2020

By Email or by Post

November 5, 2020

380 Sector 3 Ext., HSIIDC, Karnal-132001

CIN: U01403DL2009PTC188059

id of the Resolution Professional

cirp.shrivardhman@gmail.com

9729870010, 9416202010

Available on website of IBBI

September 26, 2020

October 1, 2020

October 11, 2020

October 6, 2020

Manner of obtaining request for resolution Please contact Resolution Professional

# **FINANCIAL EXPRESS**

Registered Office: 523-A, Somdutt Chamber-II, 9, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066 CIN: L30007DL1994PLC260191 Tel: 011-4565 7452

NOTICE

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, September 15, 2020, inter alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results along with Limited Review Report for the Quarter ended on June 30, 2020.

The information contained in this Notice is also available on the website of the Company i.e. www.moneyboxxfinance.com and also on the website of the Stock Exchanges, where shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com.

> Radhika Garg M. No. 36587

# **ALIROX ABRASIVES**

# LIMITED

Registered Office: 4 Scindia House New Delhi- 110001 CIN: L74899DL1944PLC000759 Tel: +91-11-23457100; Fax:+91-11-23324136 E-mail: snccil@dalmiarf.com Website: www.alirox.com NOTICE

Notice is hereby given that pursuant Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations Regulation 29 read with Regulation 47 of the and Disclosure Requirements) Regulations SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 2015, notice is hereby given that a meeting meeting of the Board of the Directors of the of the Board of Directors of the Company will Company will be held on Tuesday, 15th be held on Tuesday, the 15th September, September, 2020 for considering the 2020 at 04:00 P.M. at registered office of the Standalone and Consolidated Unaudited Company to consider and approve, inter-Financial Results of the Company for the alia. Unaudited Financial Results Quarter ended 30th June, 2020. The above information is also available on (standalone and consolidated) of the the Company's website: www.alirox.com Company for the first quarter ended 30th

and also on the website of the stock

exchange viz. Metropolitan Stock Exchange

For and on behalf of the Applicant.

**AYUSH GUPTA** 

of India Limited: www.msei.in For Alirox Abrasives Limited (Sonal Popli) Date: 09.09.2020 Company Secretary Place: New Delhi (Memb. No. 44167)

www.southerninfosys.com and may also be accessed on the Stock Exchange website http://www.bseindia.com. For Southern Infosys Limited

June, 2020.

Meeting.

Place: Baddi

Date: 08/09/2020

SOUTHERN INFOSYS LIMITED

CIN: L67120DL1994PLC059994

402-A, Arunachal Building, 19,

Ph: 011-43045402, 23354236,

Email: southerninfosys@gmail.com

Web: www.southerninfosys.com

NOTICE

Sd/-Place: New Delhi Date: 04.09.20

The said notice may be accessed on

the Company's website at http://

Kriti Bareja Compliance Officer

Him Teknoforge Limited

(Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited)

CIN: L29130HP1971PLC000904

Registered Office: Village Billanwali, Baddi , Distt: Solan (H.P)-173205

Telephone No.:+91(1795) 245466 Fax No.:+91(1795)245467

E-mail: gujarat.gears@gmail.com, Website: www.gagl.net

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of Securities and Exchange Board of

India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (Listing

Regulations), Notice is hereby given that Meeting of the Board of Directors of the

Company is scheduled to be held on Tuesday, the 15" day of September, 2020 at 12:00

noon at Registered Office of the Company situated at Village Billanwali, Baddi, District

Solan, Himachal Pradesh- 173205, inter-alia to consider and approve Unaudited

Financial Results for the guarter ended on 30" June: 2020 and to recommend dividend, if

The said notice may be accessed on the Company's website at http://www.gagl.net and

Further, the Trading Window in respect of dealing in Equity Shares of the Company is

already closed for all the Insiders, Directors, Connected Persons and Designated

Employees of the Company, and shall open 48 hours after conclusion of the Board

may also be accessed on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com.

any, on equity shares of the Company for financial year 2019-2020.

AASHRIT CAPITAL LIMITED (FORMERLY JALAN CEMENT WORKS LIMITED) Regd. Office: Select Citywalk, 6th Floor A-3, District Centre, Saket, New Delhi-110017

Barakhamba Road, New Delhi-110001 CIN:L65923DL1972PLC317436 Email Id:jalancementworklimited@gmail.com, Website:www.aashritcapital.com Notice is hereby given, pursuant to regulation Pursuant to Regulation 29 read with

47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on Tuesday, 15th day of September, 2020at 2:00 P.M. at the registered office of the Company at Select Citywalk, 6th Floor A-3, District Centre, Saket, New Delhi-110017 to transact the following business:

To consider and discussthe Unaudited Financial Resultsfor the Quarterended on 30.06.2020 and if thought fit to approve the same. Any other matter with the permission of

Chairman For AASHRIT CAPITAL LIMITED Formerly Known as Jalan Cement Works Ltd)

Date: 08/09/2020 Place: New Delhi

Lalit Sethi Company Secretary

For Him Teknoforge Limited

Manager Secretarial and Legal

NOTICE

ENCLAVE,

INTIMATION ABOUT 43RD ANNUAL GENERAL

MEETING OF THE COMPANY

(1) 43rd Annual General Meeting of the

Members of Sunair Hotels Limited will be held

through Video Conferencing ("VC") / Other

Audio Visual Means ("OAVM"), on Wednesday

accordance with the applicable provisions of

the Companies Act, 2013 read with MCA General

Circular No. 20/2020, 14/2020 and 17/2020

dated 5th May, 2020, 8th April, 2020 and 13th

(2) In compliance with the aforesaid MCI

Circulars Notice of the AGM along with the

Annual Report 2019-20 has already been sent

through electronic mode to those Members

whose email addresses are found by the

Company/directors. Also, physical copies of the

financial statements for the financial year

31.03.2020 have also being sent by courier to

all the members specifying the detail of

scheduled AGM by VC / OAVM. Members may

note that the Notice and Annual Report 2019

20 will also be available on the Company's

(3) Members are advised to notify the Company

their email ids/change in email ids and

phonenos and any change in address to the

company as soon as possibleandsend an email

to sunairhotels@gmail.com and further can call

on 011-41515250.0ther details will be posted

(4) Voting if demanded by the members will

be online at the email address of the company

By the order of the board of Directors

For Sunair Hotels limited

Neha Raiput

Company secretary

websitewww.hotelmetdelhi.com

on www.hotelmetdelhi.com

during the meeting.

Place: New Delhi

April, 2020 respectively.

30th September, 2020 at 12.00 Noon

Abhishek Misra

Company Secretary

(Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited)

imited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting neld on 07th September, 2020 to enable th Company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/ status of the Company registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest an forthern Region, B-2 Wing, 2nd Floor arvavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen days from the date o

Registered office of the Company: 1014 AMBADEEP,14 K.G.MARG NEW DELHI DL

(formerly known as INDCOM INVESTMENT SERVICES LIMITED) RISHI KUMAR GUPTA DATE: 09/09/2020

(Formerly Known as Amtek India Limited CIN: L65921HR1983PLC033789 Regd. Office: Village Narsinghpur Mohammadpur, Old Manesar Road, Corp. Off.: 3LSC Pamposh Enclave. Greater Kailash-I, New Delhi-110048 Tel: +91-11-42344444 Fax:+91-11-42344400

## NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Mr. Dinkar T. Venkatasubramanian (IP Registration no. IBBI/IPA-001/IP-P00003/2016-17/10011) (Resolution Professional). inter-alia, shall consider, approve the Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter ended June

The said Notice may be accessed on the Company's website and the website of BSE i. http://www.bseindia.com/ and NSE i.e. https://www.nseindia.com/

September, 2020.

(A company under Corporate Insolvency Resolution Process) DIVYA RIJWANI

For Castex Technologies Limited

Company Secretary & Compliance Officer Issued with Approval of Mr. Dinkar Tiruvannadapuram Venkatasubramanian (Resolution Professional) IP Registration No.

IBBI/IPA-001/IP-P00003/2016-17/10011 Place: New Delhi

#### PUBLIC NOTICE NOTICE is hereby given to the public at larg

that my Client- Mr. Abhinav Kotru, has retired from and thereby ceased to be a partner at M/s Fundoo Foods and Beverages, situated at B-Shivlok House-1, Commercial Complex Karampura, New Delhi-110015 ("Firm") effective from 30.07.2020.

My Client is no longer involved with the said Firm and shall not be liable for any past or future acts of the Firm or any of the remaining or nev

> Tanveer S. Oberoi (Advocate) (D/4475/2016) 67, Uday Park, Lower Ground Floor New Delhi-110049

FORM NO. INC-25A Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs Northern Region, New Delhi in the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014;

AND

In the matter of M/s ARCTIC FOOTPRINTS LIMITED (formerly known as INDCOM INVESTMEN SERVICES LIMITED) CIN: U74110DL1993PLC054517

ng its registered office at 1014, AMBADEEP. K.G. MARG NEW DELHI DL 110001 IN Applicant

Notice is hereby given to the general public that the Company intending to make an application o the Central Government under section 14 of he Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private nay deliver or cause to be delivered or send by rounds of opposition to the Regional Director

publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For ARCTIC FOOTPRINTS LIMITED

PLACE : DELHI DIN: 00097262 C-5/50, IIND FLOOR, VASANT KUN. **NEW DELHI 110070** 

CASTEX TECHNOLOGIES LIMITED E-mail: info@amtek.com Web: www.amtek.com

30°, 2020 on Tuesday, the 15° day of

Date: 08.09.2020

# SALORA

SALORA INTERNATIONAL LIMITED Regd. Office: D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 CIN - L74899DL1968PLC004962,

Nebsite: www.salora.com, Email: silcare@salora.com, Telephone: 011-40552341

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, the 30th Day of September, 2020 at 11.00 A,M through Video Conferencing/other Audio visual means in compliance with general circular no 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI)(hereinafter collectively referred to as circulars) companies are allowed to hold AGM's through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the Company is being held through VC to transact

In compliance with the circulars, electronic copies of the notice of the AGM and Annual Report 2019-20 have been sent to all the members whose email-IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company, at, www.salora.com, Stock exchanges website and on the website of Central Depository securities Limited ("CDSL"). The Dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 09.09.2020.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cutoff date 23.09.2020 may cast their votes electronically on the business as set forth in the notice of the AGM through the electronic voting system of NSDL (remote e-voting). Members are hereby informed that:

The business as set forth in the notice of the AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM

The remote e-voting shall commence on Sunday 27.09.2020 at 9:00 A.M.

iii. The remote e-voting shall end on Tuesday 29.09.2020 at 5:00 P.M. v. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e

voting system at the AGM shall be 23.09.2020 Remote e-voting module will be disabled after 5:00 P.M on 29.09.2020

Any person who acquires shares of the company and becomes a member postdispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e.23.09.2020 may obtain the login ID and password by sending a request at

evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for evoting then the existing user ID and password can be used for casting their vote. Members may note that a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5:00 PM IST on 29.09.2020 and once the votes on a resolution is cast by

the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) The facility for voting will also be made available during AGM and those members present in the AGM through VC facility who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so , shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. C) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. And d) Only persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut -off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.

viii. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the notice of the AGM. The details are also be made available on the website of the company, Members are requested to visit www.salora.com to obtain details.

Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with company's Registrar and share transfer Agent M/s. Skyline Financial Services Pvt. Ltd. (SKYLINE) at admin@skylinerta.com to receive copies of the Annual Report 2019-20 along with the notice of the 51st AGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the AGM through VC.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and evoting manual available at www.evoting.nsdl.com, or call on toll free number: 1800-222-990 or send arequest at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone nos.91 22 2499 4545 / 1800-222-990. For and on behalf of board

Date: 09.09.2020

Place: New Delhi

Salora International Limited Mahak Agarwal Company Secretary

Place: New Delhi

New Delhi

#### 1085, Sector 6, Karnal -132001 batratarun@gmail.com Resolution Professional Office Address

Tarun Batra

Address and email to be used for 380 Sector 3 Ext., HSIIDC, Karnal-132001 correspondence with the resolution professional cirp.shrivardhman@gmail.com 9729870010, 9416202010 <sup>22</sup> Further Details are available at or with Resolution Professional Office Address 380 Sector 3 Ext., HSIIDC, Karnal-132001 cirp.shrivardhman@gmail.com 9729870010, 9416202010

23. Date of publication of Form G Date: 10th September 2020

Resolution Profession Shri Vardhman Rice Mills Private Limite IBBI/IPA-001/IP-P00572/2017-18/1101 1085, Sector 6, Karnal -132001. batratarun@gmail.co

#### TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED Corporate Identity Number: L51909DL1987PLC027186

September 10, 2020

Regd. Office: Tinna House No 6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030 Tel No.: 011-49518530 Fax No.: 011-26807073 Email: tinna.delhi@tinna.in Website: www.tinna.in

# NOTICE OF 33<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

(A) Annual General Meeting Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting of the Members of the Tinna Rubber and Infrastructure Limited will be held on Wednesday, the 30th September, 2020 at 10.00 A.M through video conferencing ("VC") / other audio visual means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice convening the said AGM. The Notice of AGM along with its

annexures and the Annual Report for the Financial Year 2019-20 have been sent to members at their registered email addresses through permitted mode. The same is also available on the Company's website www.tinna.in. (B) Book Closure Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 23rd

September, 2020, Wednesday to 30th September, 2020, Wednesday (both days Inclusive) in connection with the above said Annual General Meeting. (C) Remote E-voting

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 duly amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2020 may cast their vote electronically on the ordinary and special business, as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Ltd. (NSDL) from a place other than the venue of AGM ('remote e-voting"). The detailed procedure/ instructions for remote e-voting have been provided in the Notice of AGM and also available at the website of NSDL. All the members are informed that:

(a) The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;

(b) The remote e-voting shall commence on 26th September, 2020 (10:00 am). (IST); (c) The remote e-voting shall end on 29th September, 2020 (5.00 pm). (IST);

(d) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at

the AGM is 23rd September, 2020; (e) Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2020, may obtain the login

ID and password by sending a request to NSDL at their email ld: evoting@nsdl.co.in (f) Members may note that : (i) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the

member, he shall not be allowed to change it subsequently; (ii) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; (iii) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; (iv) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. (g) The Notice of AGM is available on the Company's website www.tinna.in. The Company

has appointed scrutinizer for conducting the evoting process. (h) In case of any query pertaining to remote e-voting, members may refer FAQ and evoting user manual available at www.evoting.nsdl.com under download section or write an

email to evoting@nsdl.co.in Note: In view of the COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') has vide its

General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 in relation to 'Clarification on holding of annual general meeting ('AGM') through video conferencing ('VC') or other audio visual means ('DAVM') read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 in relation to 'Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder on account of the threat posed by Covid-19' (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 in relation to 'Additional relaxation in relation to compliance with certain provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 - Covid-19 pandemic' ('SEBI Circular') permitted the holding of the Annual General Meeting ('AGM')'the Meeting') through VC/DAVM, without the physical presence of the members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') and MCA Circulars, the 33rd AGM of the Company is being held through VC/OAVM on Wednesday, September 30, 2020 at 10.00 a.m. (IST). The deemed venue for the AGM will be the place from where the Chairman of the Board conducts the Meeting.

Note: Members are requested to intimate the Registrar and Share Transfer Agent of the Company - M/s Alankit Assignments Ltd. immediately of any change in their address, email Id and phone no, in respect of equity shares held in physical mode and to their Depository Participants (DPs) in respect of equity shares held in dematerialised form.

For Tinna Rubber and Infrastructure Limited

By order of the Board

Vaibhav Pandey Date: 9th September, 2020 Company Secretary

financialexp.epapr.in

MONEYBOXX FINANCE LIMITED

(Formerly Dhanuka Commercial Limited)

info@moneyboxxfinance.com www.moneyboxxfinance.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI

For Moneyboxx Finance Limited

Sd/-Company Secretary & Compliance Officer

FORM No. INC 25A

Advertisement to be published in the Newspaper for conversion of Public Company into Private Company Before the Regional Director Ministry of Corporate Affairs Northern Region

In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

Date: September 09, 2020

Date: 10.09.2020

Construction Co.

Mrs. Madhuwala

Sharma, Mr

Krishna Gopal

M/s Jasoda

Nand Palace.

Mr. Rai Mohan

Yadav S/o Shri

Rajesh Singh &

Mr. Pankaj

Yadav S/o Mr.

Virendra Yadav

M/s Arvind

Building

Materials,

Shri Arvind

Kumar Singh.

Place: New Delhi

In the matter of M/s GOURDIN APPARELS INDIA LIMITED having its registered office at B-193 A Jawahar Park, Khanpur, New Delhi -110062.

Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 09th September

2020 to enable the company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director at B-2, Wing, 2ND Floor, Paryavaran Bhawan CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Place: New Delhi

as on

.09

20

60

05

2020

00

DIN: 07030227 Regd Office: B-193-A Jawahar Park, Khanpur New Delhi-110062

POSSESSION NOTICE For Immovable Property [Rule 8 (1)] The undersigned being the authorised officer of the IDBI Administration Office Taigani. Agra. Under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security nterest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices as follows calling upon the borrower and mortgagor details below to repay the amount mentioned in the notice being with date of receipt of the said notice, and personally delivered. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act. Read with rule 8(1) of the said rules on below mentioned dates respectively. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not be deal with the property

and any dealings with the property will be subject to the charge of the IDBI Bank, Tajganj, Agra. Outstanding Possess-Borrower/ **Description of Secured Assets** Amount as per Guarantor ion Date Demand Notice Mr. Mohan All that Piece and Parcel of Land Comprised in and Forming Land of 20.98.032 part of Khasra No. 535, at Mauza Tehra, Block Salyaan, Teh. Kheragarh Swaroop Agra. Area-0.2508 Hect., in the name of Mr. Mohan Swaroop Sharma Sharma. 9 04.09 Dt. 02.12.19 Bounded as: East-Others Land, West-Remaining Part of property, North-33 Intt & Charges) Others Land, South-Rasta Smt. Vimlesh All That Piece and Parcel of Flat No-02, Bhutal Block No-03 22,87,564.90

Devi W/o Ground Floor, Raj Kamal Apartment Mauza- Basai Mustquil Distas on Dt. 11.11.19 Agra, in the name of Late Shri Devendra Pal Singh, Bounded as: late Devendra 04.09 Pal Singh. + Interest & East-Flat No-1, West-Rasta 10' wide, North- Common Passage 10' Charges) wide, South-Open to Sky. 2020 All that Piece and Parcel of Land Comprised in and Forming Land of M/s Guruj 44.04.930 Engineers

Part of Khasra No. 1432 at Mauza Ayela, Teh.- Kheragarh, Distt. Agra, Area-0.5085 Hect., in the name of Smt. Madhuwala Sharma W/o Shr Dt. 02.01.20 Krishna Gopal Sharma, Bounded as: East- Khet of Shri Giraj Singh + Interest & West-Khet of Sri Jabant Singh, North-Kheragarh Saiyan Road, South-Charges) Khet of Sri Jabant Singh. All that piece and parcel of the Land Comprising of Khasra No- 548 at 1.02.46.978 Mauza- Salempur, Farah, Teh. & Distt.- Mathura, Area-0.1010 Hect. Or

1010 Sq Mts, in the name of Late Shri Raj Mohan Yadav S/o Shri Rajesh

Dt. 02.01.20 Singh, Bounded as: East-Chakroad, West-Farm House Dabar Walo Ka, + Interest 8 North-Farm House Dabar Walo Ka, South-Rasta NH-2. Charges) All that Piece and Parcel of Roof of Frist Floor i.e Second Floor Part of Khasra No-351 at Ashirwad Comples, Mauza Bodla, Teh. & Distt-Agra, Area-125.415 Sq. Mtr. or 150 Sq. Yrds., in the name of Mr Ra Mohan Yadav S/o Shri Rajesh Singh & Mr Pankaj Yadav S/o Virendra Yadav, Bounded as: East-Open to Sky, West-Property of Pankaj Yadav,

All that piece and parcel of House part of Nagar Nigam No- 32D/SN/167 ₹ 12.23.844/on Part of Plot no. 67 part of Khasra No- 311 at Shanti Nagar, Bhood Ka as on Bagh, Kamla Nagar, Mauza Ghatwasan, Teh. & Distt. Agra, Area- 50.00 Dt. 04.01.20 Sq. mtr., in the name of Shri Arvind Singh S/o Late Shri Digvijay Singh, + Interest & Bounded as: East- Property of Smt. Kamlesh Rawat, West-Road 30' Charges) wide, North- Road 30' wide, South-Other Property.

North-Property of Prakash Chand, South-Open to Sky.

All that piece and parcel of House Part of Nagar Nigam No- 32D/SN/167 on part of Plot No. 67 part of Khasra No- 311 Shanti Nagar, Bhood Ka Bagh, Kamla Nagar, Mauza Ghatwasan, Teh. & Distt. Agra, Area-27.87 Sq. mtr., in the name of

Sd. Authorised Officer

Shri Arvind Singh S/o Late Shri Digvijay Singh, Bounded as: East- Property Others, West-Part of Plot No. 67 of Arvind Singh, North-Rasta & Nikas 9 Mtr. wide, South-Property No. 66 of Pachori ji.

Last Date for Submission of EMD

E-AUCTION PROCESS/ TENDER DOCUMENT

available on https://ncltauction.auctiontiger.net, which is

Inspection Date & Time

part of this Sale Notice.

PLACE: LUDHIANA

DATE :10.09.2020

Place : Agra Date : 10.09.2020

MODI SPINNING & WEAVING MILLS CO. LTD.

#### Regd. Office: Modinagar-201201 (U.P. CIN No. U17111UP1946PLC001428 E-MAIL ID: mswmcoltd@gmail.com

NOTICE Notice is hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 29th September, 2020 to 30th

September, 2020. By order of the Board, For Modi Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd.

Rajendra Sharma

Place: Modinagar Dy. Company Secretary TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED Regd. off.: Tinna House, No. 6 Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi - 110030. Phone: 011-49518530 • Fax: 011-26807073

Dated: 09.09.2020

#### Email: investor@tinna.in Web: www.tinna.in CIN L51909DL1987PLC027186 NOTICE

Intimation of Meeting of the Board of

Directors of the Company Pursuant to Regulation 29 (1) & (2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 and Closure of Trading Window Notice is hereby given that meeting of the

Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 15th September, 2020 at the Registered office of the Company at Tinna House, No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030. Inter alia, consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2020.

In accordance with the 'Tinna' Code of Practices & Procedures for fair disclosure of Unpublished Price Sensitive Information in pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Amendment, Regulations, 2018, the trading window as informed earlier shall remain closed till 17th September, 2020 and shall reopen on 18th September, 2020.

For Tinna Rubber And Infrastructure Limited Vaibhav Pandey Place: New Delhi Company Secretary Date: 08.09.2020 M. No. A-53653

# 2nd E-AUCTION SALE NOTICE Sale of Assets/Properties of corporate debtor-M/s Priknit Retails Limited (CIN: U18101PB2002PLC025043) Registered Office Address as per MCA :B XXV 539 A 10, Jalandhar Bye Pass Road, Ludhiana (Punjab) . CD's Land & Building for E-auction situated at VILLAGE-NOORWALA, NEAR JAIN HOSIERY COMPLEX,

BAHADUR KE ROAD, TEHSIL & DISTRICT: LUDHIANA (PUNJAB) -141 007 The corporate debtor namely M/s Priknit Retails Limited is under Liquidation Process by Hon'ble NCLT Chandigarh Bench, Chandigarh (AA) under IBC, 2016 vide order dated 18.05, 2020 (IA 132 of 2020)

CP(IB)NO.398/CHD/PB/2018 in the case titled as STATE BANK OF INDIA V/S PRIKNIT RETAILS LIMITED.

Liquidator's Name & Sanjay Kumar Aggarwal, IBBI/IPA-002/N-00126/2017-18/10295 Registration No. Registered Address with IBBI # 14, New Punjab Mata Nagar, Main Street, Pakhowal Road, Ludhiana -141 013 (Punjab Mobile & E-mail ID M-98761 05414, E-mail ID:sanjayaggarwal.fcs@gmail.com

Notice is hereby given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and regulations framed thereunder that the assets &properties of the said corporate debtor stated in Table below, will be sold by E-Auction through the e-auction platform webportal: https://ncltauction.auctiontiger.net of service provider namely M/s e-Procurement Technologies Limited | Auction Tiger, A-801, Wall Street - II, Opp. Orient Club, Nr. Gujarat College, Ellis bridge, Ahmedabad – 380006, State Gujarat, India, appointed by Liquidator. 29.09.2020 from 11.00 a.m. to 5.00 p.m. Date and Time of E-Auction

(With unlimited extension of 5 minutes each)

Any working day at 10.00 a.m to 5.00 p.m from 18.09.2020

28.09.2020 on or before 4.00 p.m.

		to onwards with prior intimation to/approval of Liquidate					
Brief Descriptions of Assets/ Properties and Address thereof		Reserve Price	EMD	Incrementa Value			
***	LAND & BUILDING: Industrial Land: 3791 & 7350 Sq. y yards) And Vacant Land 7002 Sq. 23089 Sq.ft. Approx. RCC Structure Floor Main Building, First Floor Main Floor Stair Case, Labour Quarters RC Sq. ft. Approx, Quarters Rear Building C 390 Sq.ft. Approx, External Site Devel Boundary Wall, Gate And Paving Etc. TOTAL LAND: 18143 Sq. yards as per available in Revenue Records/banks Valuers. Owned exclusively by Priknit I Liquidation and situated at Village-Noc Hosiery Complex, Bahadue Ke District-Ludhiana as per detailed tern disclaimers and relevant details, if any	yards containing Hall on Ground Building, Second C Structure 1163 Fround Floor RCC opment Including documents made //IBBI Registered Retails Pvt. Ltd. in orwala, near Jain Road, Tehsil & ns and conditions/	Crores Sixty Lacs only)	Rs. 1.25 Crore (Rupees One Crore Twenty Five Lac only)	Rs. 3.00 Lacs (Rupees Thre Lac only)		

 E-Auction will be conducted on "As is where is basis." As is what is basis. "Whatever there is and Without Recourse Basis" through approved service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger). 2. The Complete E-Auction Process/Tender Document alongwith other relevant documents viz; containing details of the Assets, online e- auction Bid Form, Affidavit, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on webportal: https://ncltauction.auctiontiger.net. Contact Mr. Ramprasad Sharma at +91-6351896834/ 079 68136855/854, E-mail ramprasad@auctiontiger.net. nclt@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net SANJAY KUMAR AGGARWAL

> Liquidator of PRIKNIT RETAILS LIMITED - In Liquidation IBBI Reg. No. IBBI/IPA-002/N-00126/2017-18/10295

Registered Office: 603, Sethi Bhawan, SUNAIR HOTELS LIMITED 7, Rajendra Place, New Delhi-110008 Read, Off.:- A-7, 1ST FLOOR, GEETANJALI **CIN:** L52110DL1985PLC019805 Contact No.: 011-25742255, 25746897 NEW DELHI- 110 017 Website: www.ritzmercantile.com. CIN:U74899DL1977PLC008495 e-mail: ritzmercantilelimited@gmail.com Website- www.hotelmetdelhi.com Notice PHONE # (91 11) 41515250 Pursuant to Regulation 29 read with e-mail: sunairhotels@gmail.com

Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 15" September, 2020 at 4.00 P.M. at the Registered office of the company to *inter-alia* consider and take on record the Unaudited Financial Results for the guarter ended on 30th June. 2020 and take extension for holding AGM till December, 2020 and any other matter with the permission of chair. For further details, please visit 'www.ritzmercantile.com' or 'www.cse-

RITZ MERCANTILE LIMITED

india.com'.www.msei.in For RITZ Mercantile Limited Date: 09.09.2020 Place: New Delhi Akansha Agarwal Company Secretary & Compliance Officer

3/14A, 1st Floor, Vijaynagar Double Storey, Delhi - 110009 **Ph.**: + 91 -11- 32601237, **Fax**: 43711286 Email: info@tarinienterprises.in

TARINI ENTERPRISES LIMITED

CIN: L51101DL2006PLC148967

Notice of the Meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on

ended the 30th June, 2020. The information contained in this notice is also available on the website of the Company i.e. (www.tarinienterprises.in) and the website of

**Abhay Chand Bardia** Place : Delhi Director

Website: www.tarinienterprises.in NOTICE

Tuesday, the 15th day of September, 2020 at 03:00 P.M. at 3/14A 1st Floor Vijay Nagar,

the stock Exchange i.e. (www.msei.in).

Double Storey, Delhi-110009, to consider inter-alia the Unaudited Financial Results (Standalone) of the Company for the quarter

Date: 09.09.2020

Dated: 04/09/2020

(DIN: 00009217

For Tarini Enterprises Limited

### पीजी इंडस्ट्री <u>लिमिटेड</u> पंजी. कार्यालयः ए-30, एस-11, दूसरा तल, कैलाश कॉलोनी नई दिल्ली-110048, वेबसाईट: www.pgil.com temi: paratri rei all grante an CHILKINGHIZZACDAGI

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 (1) (ए) के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक नं. 05/2020-21 मगंलवार, 15 सितम्बर, 2020 को 5,30 अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होगी जिसमें 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

इन्सायडरों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिए आचार संहिता तथा अप्रकाशित मृल्य संवेदनशील जानकारी के सही उदघाटन के प्रैक्टिसेस तथा प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार ट्रेडिंग विण्डो बंद कर दी गई है तथा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए स्टॉक एक्सचैंज में बोर्ड बैठक के परिणाम को जमा करने के 48 घंटे बाद फिर से खुलेगी। यह सचना स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पीजी इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए

हस्ता./

साकेत डालमिया स्थानः नई दिल्ली प्रबंध निदेशक तिथि: 08.09.2020 (DIN-00083638)

रिटज मर्केन्टाइल लि. पंजी कार्यो: 603. सेठी भवन. 7. राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 CIN: L52110DL1985PLC019805

के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा अध्यक्ष की

अनुमित से किसी अन्य विषय पर विचार कर उसे

अधिक विवरणों के लिये कृपया 'www.ritzmer

cantile.com'या www.cse-india.com

रिटज मर्केन्टाइल लि. के लिये

हस्ता.

सीएस एवं

आकांक्षा अगरवाल

अनुपालन अधिकारी

अभिलेख में लिये जाएंगे।

www.msei.in देखें।

स्थानः नर्ड दिल्ली

तेथि: 9.9.2020

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) वेनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 को 4.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 30 जुन, 2020 को समाप्त तिमाही के लिये

तिथि: 08.09.2020 स्थानः दिल्ली

विजय प्रकाश पाठक पर्ण कालिक निदेशक DIN: 07081958

इंडस्टियल इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 गौरी प्लाजा, माहोली रोड, मथुरा (यू.पी.) फोन ऑफिस : 0565-2490981

> इस समाचार पत्र में दिनांक 08 / 09 / 2020 को छपे उपरोक्त के विज्ञापन में छपाई में त्रुटी के कारण बंधक संपति के कालम में " बकाया राशि में - रू. 9,62,871.11 / - की जगह 6,92,871.11 छप गया है" कृथया उसे सुधार कर रू 9,62,871.11/- पढ़े व माने। शेष पूर्ववत रहेगा। असुविधा के लिए खेद है। प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंघ बैंक

## OSBI प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग-॥विभाग, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर,

शुद्धिपत्र कपया 'एप्लिकेशन परफॉमेंस मॉनिटरिंग टूल लाइसेंस की केंद्रीकृत खरीद

और मूल्य खोज के लिए आरएफपी क्र. एसबीआई/जीआईटीसी/प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग-II/ 2020/2021/707 दिनांक 19/08/2020 का संदर्भ लें. **शद्धिपत्र** प्रकाशित किया जा चुका है. कृपया बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in या https://bank.sbi पर 'प्रोक्योरमेंट न्यूज़' देखें. स्थान: नवी मंबई उप महाप्रबंधक दिनांक: 10.09.2020

(पीई-॥)



सर्व साधारण को सुचित किया जाता है, कि नगर निगम, कोटा दक्षिण द्वारा बंधा धर्मपुरा गौशाला एवं कायन हाउस किशोरपुरा के पशुओं के लिए एक वर्ष की अवधि के लिये लवण चूर्ण, खल-चुरी, गुड, नमक, अजवाईन आपूर्ति कार्य के लिये वार्षिक दर संविदा हेतू इच्छुक व्यावसायियों एंव थोक विक्रेता एवं फर्मों से ई-प्रोक्युरमेन्ट द्वारा ऑनलाईन ई-बिड आमंत्रित की जाती है।

ял. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित राशि	धरोहर राशि ( 2% )	बिड शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क	ऑन लाईन बिड विक्रय एवं जमा की तिथि	
1.	एक वर्ष के अवधि के लिये लवण चूर्ण, खल-चूरी, गुड़, नमक, अजवाईन आपूर्ति कार्य के लिये वार्षिक दर संविदा	30.00 लाख	60,000/-	2000/-	500/-	09.09.2020 से 18.09.2020	19.09.2020 सायं 06:00 बजे तक

1. संवेदक को सम्बन्धित पलिस थाने द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो विगत 6 माह से अधिक पराना नहीं हो प्रस्तत करना होगा।

2. G.S.T. रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि

कार्यालय (यदि कोई हो) का पता

आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है :

कार्पोरेट देनदार के पंजीकत कार्यालय तथा पृथ

रुचि की अभिव्यक्ति के आमन्त्रण की तिथि

संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाध

12. अस्थायी सुची की आपत्तियाँ जमा करने की अन्तिम 6 अक्टूबर, 2020

सम्भावित समाधान आवेदकों की अन्तिम सूची निर्गत 11 अक्टूबर, 2020

पत्र तथा अधिक सूचना हेतु निवेदन प्राप्ति की रीति तरुण बत्रा

समाधान योजना, मुल्यांकन आव्युह, सुचना ज्ञापन कृपया समाधान प्रोफेशनल से सम्पर्क

मुल्यांकन आव्यृह तथा निवेदन के निर्गमन की तिथि

21. समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार हेतु प्रयुक्त

होने वाला पता तथा ई-मेल

23. प्रपत्र जी के प्रकाशन की तिथि

तिथि : 10 सितम्बर, 2020

निगमित/पंजीकृत है

आरंभन की तिथि

उपलब्ध हैं

निर्गत होने की तिथि

3. गत 2 वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतियां पेश करना होगा। 4. शॉप एक्ट के तहत जारी पंजियन प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश करना अनिवार्य होगा।

5. ई-बिड के साथ 2 प्रतिशत राशि का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा तथा सफलतम बिडर को 3 प्रतिशत धरोहर राशि नगद/डीडी के रूप में अनुबंध करते समय जमा करवाना होगा एवं D.D./ बैकर्स चैक प्रशासक एवं आयुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण के नाम तैयार कराने होंगे तथा प्रोसेसिंग फीस का D.D., M.D., R.I.S.L. के

नाम तैयार करना होगा D.D./ बैंकर्स चैक फर्म के खाते अथवा फर्म के मालिक के खाते से तैयार कराया जाना आवश्यक है इसके अभाव में बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।

रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमन्त्रण

[ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता

समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन ]

4. कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित सीआईएन : U01403DL2009PTC188059

श्री वर्धमान राइस मिल्स पाइवेट लिमिटे

न पंजीकत कार्यालय : एलडी–1. पीतमपरा, दिल्ली–110034

cirp.shrivardhman@gmail.com पर ई-मेल द्वारा प्राप्त किया

ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया संहिता. 2016 की धारा 29ए एव

http://ibbi.gov.in/webfront/legal framework.php पर

अन्य प्रावधानों के अनुसार। आईबीबीआई की वेबसाइट

IBBI/IPA-001/IP-P00572/2017-18/11013

380 सेक्टर 3 एक्सटेंशन, एचएसआईआईडीसी, करनाल-132001

380 सेक्टर 3 एक्सटेंशन, एचएसआईआईडीसी, करनाल-132001

IBBI/IPA-001/IP-P00572/2017-18/11013

IBBI/IPA-001/IP-P00572/2017-18/11013

380 सेक्टर 3 एक्सटेंशन, एचएसआईआईडीसी, करनाल-132001

380 सेक्टर 3 एक्सटेंशन, एचएसआईआईडीसी, करनाल-132001

तरुण बत्रा

समाधान प्रोफेशनल

श्री वर्धमान राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

IBBI/IPA-001/IP-P00572/2017-18/11013

1085, सेक्टर-6, करनाल-132001, batratarun@gmail.com

समाधान प्रोफेशनल के कार्यालय का पता

cirp.shrivardhman@gmail.com

cirp.shrivardhman@gmail.com

9729870010.9416202010

9729870010,9416202010

1085, सेक्टर 6, करनाल-13200

cirp.shrivardhman@gmail.com

cirp.shrivardhman@gmail.com

batratarun@gmail.com

9729870010.9416202010

9729870010.9416202010

सनराइज डिस्टिलरीज लिमिटेड

सीआईएन : L15511DL1985PLCO21272

पंजीकृत कार्यालय : 3/14A, प्रथम तल, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009

सम्पर्क नं. : 011-27132054, 09868008427

ई-मेल : suniisedistillerieslimited@gmail.com

35वीं वार्षिक आम बैठक तथा रिमोट ई-वोटिंग की सचना

एतद्वारा सचना दी जाती है कि एजीएम की सचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष प्रकार्य के लेन–देन के लिए सनराइज

डिस्टिलरीज लिमिटेड के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजअल

साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. आयोजित की जायेगी। वार्षिक

रिपोर्ट तथा रिमोट ई-वोटिंग विवरणों सहित एजीएम की सचना इलेक्टॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों के पास भेज

दी गयी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और शेयरधारकों के पास सूचना ई-मेल

करने की पूर्णता की तिथि 7 सितम्बर, 2020 है। यदि आपका ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं

है तो एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट एवं ई–वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल आईडी

भौतिक धारिता : ई-मेल पता पंजीकृत कराने के लिए फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की

स्कैन्ड प्रति (सामने तथा पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित

स्कैन्ड प्रति) उपलब्ध कराते हुए कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर

कृपया मूल कैंसिल्ड चेक के साथ अपना बैंक विवरण हमारे आरटीए बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज

(प्रा.) लि., बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली-110062, सम्पर्व

नं. : 011–29961281–283 के पास, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है तो फोलियो नम्बर का उल्लेख करते हुए पत्र भेजें।

**डीमैट धारिता** : कृपया अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा निर्देशित प्रक्रिया के

ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने हेतु मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया (एमएसईआई) की

वेबसाइट www.msei.in पर उपलब्ध है। एतद्वारा सुचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम.

2014 यथा संशोधित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता

दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी ने सभी प्रकार्य के लेन-

देन हेत सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उनके पोर्टल www.evotingin

dia.com के माध्यम से ई-वोटिंग सविधा का प्रावधान किया है ताकि सदस्य इलेक्टॉनिक रूप से अपना मतदान

कर सकें। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 27 सितम्बर, 2020 (9.00 बजे पुर्वा.) प्रारम्भ होगी और मंगलवार,

29 सितम्बर, 2020 (5.00 बजे अप.) को समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के उपरान्त ई-वोटिंग की अनमति

नहीं दी जायेगी। इस अवधि के दौरान भौतिक प्रारूप या अभौतिक प्रारूप में कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर.

2020 तक शेयर धारण करने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति

जो शेयर अर्जित करता है और सचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि

अर्थात 23 सितम्बर, 2020 तक शेयर धारण करता है, वह helpdesk@cdslindia.com पर या आरटीए, बीटल

फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि. के पास beetalrta@gmailcom पर निवेदन भेजकर लॉगिन

आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि यदि व्यक्ति पहले से ई-वोटिंग हेतू सीडीएसएल के साथ पंजीकृत

है तो वह अपना मतदान करने हेत् वर्तमान युजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। इसके पश्चात

मतदान हेत रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। सदस्य द्वारा संकल्प पर एक

बार मतदान करने के उपरान्त बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनमति नहीं होगी। ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने

की सविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना

मतदान कर लिया है वे एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। ई-

वोटिंग प्रक्रिया हेतु श्री नवीन कुमार रस्तोगी (सदस्यता सं. एफसीएस-3685), प्रोपराइटर मैसर्स एन.के. रस्तोगी

एण्ड एसोसिएटस, कम्पनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया

एजीएम की भेजी गयी सूचना के साथ पत्र में उल्लिखित है। साथ ही सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अन्तरण

पस्तिकाएँ 23 सितम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। ई-वोटिंग रं

पंजीकत कराने हेत कपया निम्नलिखित निर्देश का अनपालन करें :

अनसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत करायें।

सर्विसेज (प्रा.) लि. के पास beetalrta@gmail.com पर निवेदन भेजें।

इकाई : गोहाना रोड, पानीपत, हरियाणा-132103

नगर निगम. कोटा दक्षिण

उपायुक्त

## NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD. 3rd Floor, Surva Plaza, K-185/1, Sarai Julena,

New Friends Colony, New Delhi – 110025 CIN: L74899DL1987PLC026617 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION** 

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means "OVAM") on Wednesday, 30<sup>th</sup> September, 2020 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

AGM alongwith Annual Report for the year 2019-20, have been sent on September 8, 2020 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd.. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSELimited at www.bseindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities

In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the

Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015and section 91 of the Companies Act, 2013 readwith Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 25<sup>th</sup> September, 2020 to Wednesday, 30<sup>th</sup>September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of aforesaid Annual General Meeting. The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically

for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to cs@modisteel.net In compliance with the provisions of regulation 44 of the Securities Exchange

Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and Section 108 of the Act readwith Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rule, 2015, the Company is pleased to extend remote e-voting facility to its members with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by CDSL.All the members are informed that: • The remote e-voting facility shall commence on Saturday 26th September,

2020 (10.00 a.m.) till Tuesday, 29th September, 2020 (5.00 p.m.).The remote evoting shall not be allowed beyond the said date and time. • The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is September 24, 2020. Any person, who acquires shares of the Company and become member of

the Company after dispatch of the Notice of Annual General Meeting and

holding shares as of the cut-off date, i.e., Thursday, September 24, 2020, may

obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However if a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing user ID and password can be used for • Member may note that (a) the facility for voting shall be made available at the AGM. (b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote

again, (c) a person whose name is recorded in the Register of Member or in the Register of Beneficial owner maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as In case of any queries, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Help section of www.evotingindia.com or call on toll free number 1800225533 or contact

Central Depository Services (India) Limited, at A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai400013 at the Email helpdesk.evoting@cdslindia.com or at telephone nos. 022-23058543 or 022-23058542 who will address the grievances relating to electronic voting. The Members may also write to Ms. Vandana Gupta, Company Secretary of the Company at email-ID cs@modisteel.net or at the By order of the Board

For National General Industries Ltd. Vandana Gupta

Place: New Delhi **Company Secretary** Date: 09.09.2020 Memb. No. ACS24012

### TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED Corporate Identity Number: L51909DL1987PLC027186

Regd. Office: Tinna House No 6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030 Tel No.: 011-49518530 Fax No.: 011-26807073

#### NOTICE OF 33" ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING (A) Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting of the Members of the Tinna Rubbe and Infrastructure Limited will be held on Wednesday, the 30th September, 2020 at 10.00 A.M through video conferencing ('VC') / other audio visual means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice convening the said AGM. The Notice of AGM along with its innexures and the Annual Report for the Financial Year 2019-20 have been sent to members at their registered email addresses through permitted mode. The same is also available on the Company's website www.tinna.in.

Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 23rd September, 2020, Wednesday to 30th September, 2020, Wednesday (both days Inclusive) in connection with the above said Annual General Meeting.

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 duly amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2020 may cast their vote electronically on the ordinary and special business, as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Ltd. (NSDL) from a place other than the venue of AGM ('remote e-voting'). The detailed procedure/ instructions for remote e-voting have been provided in the Notice of AGM and also available at the website of NSDL.

through voting by electronic means;

(c) The remote e-voting shall end on 29th September, 2020 (5.00 pm). (IST);

(d) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 23rd September, 2020;

(e) Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM

the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently; (ii) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; (iii) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; (iv) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

has appointed scrutinizer for conducting the evoting process.

Note: In view of the COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') has vide its General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 in relation to "Clarification on holding of annual general meeting ('AGM') through video conferencing ('VC') or other audio visual means ('OAVM') read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 in relation to 'Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder on account of the threat posed by Covid-19' (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 in relation to 'Additional relaxation in relation to compliance with certain provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 - Covid-19 pandemic' ('SEBI Circular') permitted the holding of the Annual General Meeting ('AGM')'the Meeting') through VC/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') and MCA Circulars, the 33rd AGM of the Company is being held through VC/DAVM on Wednesday, September 30, 2020 at 10.00 a.m. (IST). The deemed venue for the AGM will be the place from where the Chairman of the Board conducts the Meeting. Note: Members are requested to intimate the Registrar and Share Transfer Agent of the

and phone no. in respect of equity shares held in physical mode and to their Depository

Participants (DPs) in respect of equity shares held in dematerialised form.

By order of the Board

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 08.09.2020 यशिका सिन्हा

🔊 पूर्वाचर रेळव भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मंडल रेल प्रबंधक (चिकित्सा), वाराणर्स निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से **खुली निविदा** आमंत्रित करते हैं। क्रमांकः— 1, निविदा सूचना संख्याः ई–निविदा संख्या–2020 / मेड / 184 / 1 / BMW **ई—निविदा सूचना का नाम** :– मंडल चिकित्सालय, वाराणसी में बॉयो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल निस्तारण से संबंधित निविदा कार्य के संबंध में। **अनमानित लागतः**– ₹ 872964.00 अमानत राशिः— ₹ 17500, निविदा प्रपत्र का मूल्य:-- ₹ 2000, कार्य समापन समय:-- 36 माह, . निविदा बन्द होने की तिथि एवं समय:– 05.10.2020, 15.00 बजे, **निविदा खोलने की** तिथि एवं समय:-- 05.10.2020, 15.00 बजे। इस ई-निविदा का पूर्ण विवरण एवं निविदा मे भाग लेने हेत् भारतीय रेल की वेबसाईट www.ireps.gov.in पर देखें। वरिष्ठ मंडल चिकित्साधिकारी (निविदा)

साउर्थन इंफोसिस लिमिटेड के लिए स्थान : नई दिल्ली दिनांकः 04.09.20 कॉम्पलाइंस आफिसर

पंजीकृत कार्यालयः सी–41, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 फोनः (0120) 2569761

CIN: L92111DL1985PLC021095 सेबी (सचीबद्ध देयताओं और प्रकटीकरण Notice is hereby given pursuant to आवश्यकताएं), विनियम, २०१५ के विनियम २९ अनुपालन में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 30 जून, 2020 क समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

पर विचार करने व अनुमोदन के लिए मंगलवार, 15 सित. 2020 को आयोजित की जाएगी। कंपनी वेबसाइट www.calcomindia.com और बीएसई लि.

स्थानः नई दिल्ली दिनांक : 7.9.2020

TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED Regd. off.: Tinna House, No. 6 Sultanpur,

Mandi Road, Mehrauli, New Delhi - 110030. Phone: 011-49518530 • Fax: 011-26807073 Email: investor@tinna.in Web: www.tinna.in CIN L51909DL1987PLC027186 NOTICE

Intimation of Meeting of the Board of

Directors of the Company Pursuant to Regulation 29 (1) & (2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 and Closure of Trading Window Notice is hereby given that meeting of the

Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 15th September, 2020 at the Registered office of the Company at Tinna House, No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030. Inter alia, consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2020. In accordance with the 'Tinna' Code of Practices & Procedures for fair disclosure of Unpublished Price Sensitive Information in

Trading) Amendment, Regulations, 2018, the trading window as informed earlier shall remain closed till 17th September, 2020 and shall reopen on 18th September, 2020. For Tinna Rubber And Infrastructure Limited

pursuant to SEBI (Prohibition of Insider

Vaibhay Pandey Place: New Delhi Company Secretary M. No. A-53653 Date: 08.09.2020

अंकुर मार्केटिंग लि. CIN: L52110DL1985PLC020054

पंजी. कार्यालयः डी-१, जंगपुरा एक्सटेंशन, वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110014 संय. कार्यालय: 210, रूबी पार्क, कस्बा रठाला, कोलकाता-700078 फोन: 033 71300203; ई-मेल: ankurmarketing85@gmail.com

सेबी (आपत्तियों के सुचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुवर्ती एद्तद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैण्डएलॉन) पर परस्पर विचार और अनुमोदन के लिए कंपनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक संयुक्त कार्यालय 210, रूबी पार्क, कस्बा रठाला, कोलकाता- 700078 पर 15 सितम्बर, 2020 के अपराहन 3.00 बजे आयोजित की जायेगी।

निदेशकों के बोर्ड के आदेशानुसार

स्थानः दिल्ली

तिथि: 09.09.2020

(दिव्या सिंह

पीतमपुरा उत्तरी, दिल्ली-11003 डीआई ई-मेल आईडी : franklinleasingfinance@gmail.com सीआईएन : U74899DL1992PLC048028

28वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग सचना तथा बक क्लोजर

प्रकार्य के लेन-देन के लिए बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 5.15 बजे अप. यूनिट/दुकान सं. 205 दसरी मंजिल. अग्रवाल सिटी माल रोड सं. 44. पीतमपरा उत्तरी. दिल्ली-11003 पर आयोजित की जायेगी 2. एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 की इलेक्टॉनिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गयी हैं जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत हैं। साथ ही यह कम्पनी की वेबसाइट www.franklinleasing.in पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना भेजे जाने का कार्य 8 सितम्बर

2020 को पूरा किया जा चुका है। 3. कट-ऑफ तिथि अर्थात 25 सितम्बर, 2020 तक भौतिक प्रारूप या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से (''रिमोट ई-वोटिंग''

मतदान के माध्यम से किया जायेगा।

iii. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. भा.मा.स. पर समाप्त होगी; शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 है;

v. कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सुचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 तक शेयर धारण करता है, वह evoting@cdsl.co.in पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि यदि व्यक्ति पहले से ई-वोटिंग हेत सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह अपन मतदान करने हेत वर्तमान यजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है:

vi. सदस्य ध्यान दें कि (क) उपर्युक्त तिथि एवं समय के उपरान्त मतदान हेतु रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा और सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान करने के उपरान्त बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनमति नहीं होगी. (ख) बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध होगी, (ग) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के उपरान्त भी आम बैठक में भाग ले सकते हैं किन्त बैठक के दौरान उन्हें दबारा मतदान करने की अनुमित नहीं होगी, (घ) केवल वे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर य डिपॉजिटरी द्वारा अनरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग य

एजीएम के दौरान बैलट पेपर के माध्यम से ई-वोटिंग सविधा ग्रहण करने के पात्र होंगे। vii. एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.franklinleasing.in पर उपलब्ध है तथा viii. किसी पूछताछ के लिए सदस्य https://www.evoting.cdsl.com पर डाउनलोड खण्ड में सदस्यो हेतु फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (''एफएक्यू'') तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का सन्दर्भ लें या टोल फ्री नं. 1802005533 पर कॉल करें या निर्दिष्ट ई-मेल आईडी : helpdesk.evoting@cdslin

सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ शुक्रवार 25 सितम्बर, 2020 से बुधवार 30 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

कृते फ्रैंकलिन लीजिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड

तिथि : 8 सितम्बर, 2020

स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव तथा अनपालन अधिकारी

Email: tinna.delhi@tinna.in Website: www.tinna.in

(B) Book Closure

(C) Remote E-voting

All the members are informed that: (a) The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted

(b) The remote e-voting shall commence on 26th September, 2020 (10:00 am). (IST);

and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2020, may obtain the logi ID and password by sending a request to NSDL at their email ld: evoting@nsdl.co.in (f) Members may note that : (i) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after

(g) The Notice of AGM is available on the Company's website www.tinna.in. The Company

(h) In case of any query pertaining to remote e-voting, members may refer FAQ and evoting

user manual available at www.evoting.nsdl.com under download section or write an

Company - M/s Alankit Assignments Ltd. immediately of any change in their address, email Id

For Tinna Rubber and Infrastructure Limited

Vaibhav Pandey Company Secretary

मजाधि / विविध-25

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मोबाइल नं० 09794845955 पर एस.एम.एस करें।

ड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करे कैलकॉम विजन लिमिटेड **MODI SPINNING &** WEAVING MILLS CO. LTD.

वेबसाइट : www.calcomindia.com ई—मेलः corp.compliance@calcomindia.com

वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। बोर्ड के आदेशानुसार हस्ता./-(आयुषि जिंदल)

Dated: 09.09.2020 Place: Modinagar Dy. Company Secretary

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कम्पनी (गठन) नियम

मैसर्स आर्कटिक फुटप्रिंट्स लिमिटेड (पूर्व में इंडकोम इनवेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) CIN: U74110DL1993PLC054517 जसका पंजीकृत कार्यालय : 1014 अ**म्बादीय**, 14 के. जी. मार्ग नई दिल्ली डी 110001

साउर्थन इंफोसिस लिमिटेड

CIN: L67120DL1994PLC059994

402-ए. अरुणांचल बिल्डिंग, 19.

बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

ईमेलः southeminfosys@gmail.com

वेबसाइटः www.southerninfosys.com

सूचना

सेबी के अधिनियम 29 अधिनियम (दायित्वो

एवं प्रकटीकरण आवश्यकतावो के सचनीय

अधिनियम 2015 अनुपालन में यह सूचित

किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल

की बैठक मंगलवार, 15 सितंबर, 2020 को

04:00 बजे को आयोजित की जाएगी जिसमे

30 जून, 2020 को समाप्त पहली तिमाही के

लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामो

(स्टॅंडअलोन एवं समेकित) पर विचार और

उक्त नोटिस को कंपनी की वेबसाइट

http://www.southerninfosys.com एवं स्टॉक

एक्सचेंज की वेबसाइट http:/

www.bseindia.com पर भी देखा जा सकता

Regd. Office: Modinagar-201201 (U.P.

CIN No. U17111UP1946PLC001428

E-MAIL ID: mswmcoltd@gmail.com

NOTICE

section 91 of the Companies Act.

2013, that the Register of Members

and the Share Transfer Books of the

Company will remain closed from

29th September, 2020 to 30th

For Modi Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd.

फार्म नं. आईएनसी-25ए

क्षेत्र के समक्ष दिल्ली

2014 के नियम 41 के मामले में

By order of the Board

Raiendra Sharma

September, 2020.

कृति बरेजा

अनुमोदन किया जायेगा।

आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी 07 सितम्बर, 2020 को आयोजित अपनी प्रतिविशिष्ट आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ ां कम्पनी को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में बदलने वं लिए सक्षम बनाने हेत ऐसे बदलाव को प्रभावी करने के लेए उपरोक्त कथित नियमों के साथ पठित कम्पनी ।धिनियम, 2013 की घारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छक है। कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक

शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 के पास इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी **पंजीकृत कार्यालय :** 1014 अम्बादीप, 14 के मार्ग नई दिल्ली डी 110001 इन

कृते आर्कटिक फ्टप्रिंट्स लिमिटेड हस्ता/-ऋषि कुमार गुप्ता डीआईएन : 00097262 तिथि : 09.09.2020 स्थान : दिल्ली

सी-5/50, दूसरा प्लोर, वसंत कुंज

वेबसाइटः www.ankurmarketing.com

कृते अंकुर मार्केटिंग लि

कम्पनी सचिव

फ्रैंकलिन लीजिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : यूनिट/दुकान नं. 205, दूसरी मंजिल, अग्रवाल सिटी माल रोड सं. 44,

एतद्वारा सचित किया जाता है कि ।. कम्पनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') एजीएम की सूचना में उल्लिखित सामान्य एवं विशेष

इलेक्टॉनिक रीति से अपना मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि: i. एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष प्रकार्य का लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वार

ii. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को 10.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स. पर प्रारम्भ होगी; iv. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा या एजीएम के दौरान मतदान की पात्रता निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ तिथि

dia.com, पर मेल करें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से सम्बन्धित शिकायतों का निराकरण करें। सदस्य कम्पनी सचिव के पास उपर्यक्त ई-मेल आईडी पर अथवा कार्यालय के पंजीकृत पते पर भी लिख

रमेश कुमार डालमिय

डीआईएन : 03257468

www.readwhere.com

अपडेट करा लें।

तिथि : ८ सितम्बर, २०२०

पंजी. कार्या.: डी-13/4, ओखला इंडस्टियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020. टेली.: 011-40552341 ई-मेल: silcare@salora.com, Website: www.salora.com वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की तिथि की सूचना एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 51वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 30 सितम्बर, 2020

को 11.00 बजे पूर्वा. में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020, 17/2020

SALORA

सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड

CIN:L74899DL1968PLC004962

20/2020तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 (यहाँ के बाद सामृहिक रूप से सर्क्युलर्स वर्णित) के अनुपालन में किसी सामृहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना कम्पनी को वीसी के द्वारा एजीएम आयोजित करने की अनुमित दी गई है, विडियो कॉन्फ्रेसिंग/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों से आयोजित की जायेगी।

अतएव कम्पनी की एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों

. सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसे सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.salora.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। ईमेल द्वारा एजीएम सचना का प्रेषण 9.9.2020 को पुरा कर

कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2020 को भौतिक या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम सचना में वर्णित व्यवसायों को इलेक्टॉनिक रूप से निष्पादित कर सकते हैं। सदस्यों को सचित किया जाता है किः

एजीएम की सचना में वर्णित व्यवसायों को रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली से निष्पादित किया

रिमोट ई-वोटिंग रविवार 27.9.2020 को (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी।

ii. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 29.9.2020 को (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। v. रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की पात्रता सनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 23 29.9.2020 को 5.00 बजे अप. के बाद रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जायेगी। . यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा

23.9.2020 की कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि वे ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिये अपने वर्तमान यजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ii. सदस्यगण ध्यान रखें किः क) 29.9.2020 को 5.00 बजे अप. के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमित नहीं दी जायेगी; ख) एजीएम के दौरान भी मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी तथा वीसी सुविधा द्वारा एजीएम में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर मतदान नहीं किये हों, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली से मतदान कर सकते हैं। ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों. वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, किन्तु फिर से मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे; तथा घ) केवल ऐसे व्यक्ति

जिनका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे। . डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति, भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिये रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सुचना में दी गई है। ये विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्यों से आग्रह है कि www.salora.com देखकर

जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हों, उनसे आग्रह है कि संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स

के पास ई-मेल पता दर्ज कराएं तथा भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि 51वें

एजीएम की सचना, रिमोट ई-वोटिंग के लिये निर्देशों तथा वीसी के द्वारा एजीएम में भागीदारी के लिये निर्देशों के

साथ वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिये admin@skylinerta.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट मैं. स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्रा.लि. के पास अपना ईमेल पता यदि आपको एजीएम में शामिल होने एवं ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न अथवा समस्या हं तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध Frequently Asked Ouestions (FAO's) तथा ई वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा टोल फ्री नम्बरः 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा evoting@cdsl.co.in

पर अनुरोध भेजें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से उनके विनिर्दिष्ट ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नं. 91 22 24994545/1800-222-990 बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से

सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड हस्ता. महक अगरवाल कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय : 232बी, तृतीय मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020 सीआईएन : L40300DL1995PLC066923, फोन : 011-33550700, फैक्स : 011-26321894 ई-मेल : investorcare@polymedicure.com, वेबसाइट : www.polymedicure.com 25वीं वार्षिक आम बैठक तथा रिमोट, बुक क्लोजर तथा रिमोट ई-वोटिंग की सचना एतद्वारा सचना दी जाती है कि एजीएम की सचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष प्रकार्य के लेन-देन के लिए पॉली मेडिक्योर लिमिटेड के सदस्यों की 25वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य

तिथि: 09.09.2020

स्थानः नई दिल्ली

पर्वा. आयोजित की जायेगी। वार्षिक रिपोर्ट तथा रिमोट ई-वोटिंग विवरणों सहित बैठक की सचना इलेक्टॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गयी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत हैं। शेयरधारकों के पास सचना ई-मेल करने की पर्णता की तिथि 7 सितम्बर, 2020 है। यदि आपका ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है तो वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक

ऑडियो विजअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को 10.00 बजे

रिपोर्ट तथा ई–वोटिंग हेत लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत कराने हेत् कृपया निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन करें : भौतिक धारिता : ई-मेल पता पंजीकृत कराने के लिए फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति (सामने तथा पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति) उपलब्ध कराते हुए कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, मास सर्विसेज

| लिमिटेड के पास  ${
m info}$ @ ${
m masserv.com}$  पर निवेदन भेजें। कृपया मूल कैंसिल्ड चेक के साथ अपना बैंक विवरण हमारे आरटीए ( अर्थात मास सर्विसेज लिमिटेड., टी 34, दूसरी मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020) के पास, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है तो फोलियो नम्बर का उल्लेख करते हुए पत्र के साथ भेजें। डीमैट धारिता : कृपया अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा निर्देशित प्रक्रिया के अनसार अपना ई–मेल पता पंजीकृत करायें। यदि कम्पनी द्वारा घोषित होता होता है तो एनएसीएच द्वारा

ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने हेतु कम्पनी की वेबसाइट www.polymedicure.com पर

उपलब्ध है। एतहारा सचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 यथा संशोधित के

साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन

लाभांश के भुगतान हेतु अपने डीपी के साथ अपना बैंक विवरण भी अपडेट करायें।

अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी ने सभी प्रकार्य के लेन-देन हेतु सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उनके पोर्टल www.evotingindia.com के माध्यम से ई–वोटिंग सुविधा का प्रावधान किया है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकें। रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 (9.00 बजे पर्वा.) प्रारम्भ होगी और सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 (5.00 बजे अप.) को समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के उपरान्त ई-वोटिंग की अनमति नहीं दी जायेगी। इस अवधि के दौरान भौतिक प्रारूप या अभौतिक प्रारूप में कट-ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2020 तक शेयर धारण करने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और सुचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2020 तक शेयर धारण करता है, वह helpdesk@cdslindia.com पर या आरटीए, मास सर्विसेज के पास info@masserv.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि यदि व्यक्ति पहले से ई-वोटिंग हित सीडीएसएल के साथ पंजीकत है तो वह अपना मतदान करने हेत वर्तमान यजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। इसके पश्चात मतदान हेत रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर िदिया जायेगा। सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान करने के उपरान्त बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनमति नहीं होगी। ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की सविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं किन्त वे दुबारा मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। ई-वोटिंग प्रक्रिया हेत श्री पवन कमार मिश्रा, कार्यरत सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस–4305 तथा सीपी सं. 16222), प्रोपराइटर पी.के. मिश्रा एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तत प्रक्रिया एजीएम 🛮 की भेजी गयी सूचना के साथ पत्र में उल्लिखित है। ई-वोटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ/शिकायत श्री अविनाश चन्द्र, कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी, पॉली मेडिक्योर लिमिटेड, 232-बी, तीसरी मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल स्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020, दूरभाष : 011-33550700, फैक्स : 011-26321894, ई-मेल : cs@polymedicure.com को सम्बोधित की जा सकती है। एतद्वारा यह सचना भी दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 कि नियम 10 तथा सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को रिकार्ड पर लेने के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ बुधवार 23 सितम्बर, 2020 से मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र सं.

# कपया 21 अगस्त, 2020 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) तथा जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित वार्षिक

CIR/MRD/DP/10/2013 दिनांक 21 मार्च, 2013 के माध्यम से नियत किया है कि सभी सुचीबद्ध

कम्पनियाँ शेयरधारकों को भगतान करने के लिए अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भगतान माध्यम जैसे ईसीएस,

एनएसीएच, एनईएफटी/आरटीजीएस आदि का उपयोग करेंगी। सभी शेयरधारकों से निवेदन है कि यदि उनके

बैंक खाते कम्पनी के शेयर अन्तरण एजेंट या डिपॉजिटरी भागीदार, जैसा मामला हो, के साथ 9-अंकीय

एमआईसीआर कोड (या तो बैंक खाता सं. या 9-अंक का एमआईसीआर कोड या दोनों) के साथ अपने

बैंक खाते अपडेट करा लें। परिपत्र सं. एनपीसीआई/2016-17/एनएसीएच 1203 दिनांक 8 दिसम्बर, 2016

के अनुसार एनपीसीआई ने नियत किया है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया हेतु खाता संख्या न्यूनतम 10

अंकों का तथा भारतीय बैंक के मामले में 9 अंकों का होना चाहिए। 10 अंकों अथवा भारतीय बैंक के मामले

में 9 अंकों से कम की खाता संख्या अस्वीकार कर दी जायेगी। तदनुसार आपसे निवेदन है कि कृपया कथित

परिपत्र के अनरूप लाभांश के इलेक्टॉनिक भगतान हेत एनपीसीआई नियमों के अनसार अपना बैंक विवरण

आम बैठक की तिथि मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 पढ़ी जाए। कते पॉली मेडिक्योर लिमिटेड

अविनाश चन्द्रा Place: New Delhi Date: 9th September, 2020

डा. फ्रेश एसेट्स लि. CIN: L74899DL1990PLC042302

पंजी. कार्या.: बी-1/ई-24, मोहन को-ऑपरेटिव एतदद्वारा सचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व

तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के अंतर्गत कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, सितम्बर, 2020 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन विषयों के अलावे 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अनुमोदन कर उसे अभिलेख

डा. फ्रेश एसेट्स लि. के लिये

शुद्धि पत्र

सेक्टर-11, सीबीडी बेलापर, नवी मंबई - 400 614

सम्बन्धित कोई पछताछ/शिकायत के लिए सम्बोधित करें : सश्री यशिका सिन्हा, कम्पनी सचिव तथा अनपाल अधिकारी, सनराइज डिस्टलरीज लिमिटेड, 3/14ए, प्रथम तल, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009, मोबाइल नं. : 011-27132054, ई-मेल : sunrisedistillerieslimited@gmail.com. कते सनराइज डिस्टिलरीज लिमिटेड

कम्पनी सचिव एवं अनपालन अधिकारी

बक क्लोजर